

क्षतिपूर्ति बांड / INDEMNITY BOND

200

यह क्षतिपूर्ति बांड \_\_\_\_\_ जिसे इसमें  
आगे प्रथम पक्षकार कहा गया है तथा पंजाब नैशनल बैंक \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ जिसे इसमें आगे द्वितीय पक्षकार कहा गया है के बीच निष्पादित किया गया।

\*यहां सम्बन्ध दस्तावेज का  
विवरण दें। (सावधि जमा  
रसीद, मांग जमा रसीद  
अथवा 3/5 वर्ष तक के  
नकदी प्रमाण-पत्र इत्यादि)

\*Here state description  
and details of the docu-  
ments concerned (Fixed  
Deposit Receipt, Call Deposit  
Receipt, or 3/5 year  
Cash Certificates etc.)

This indemnity bond executed between \_\_\_\_\_  
hereinafter called the first party and Punjab National Bank at \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ hereinafter called the second party.

प्रथम पक्षकार के पास द्वितीय पक्षकार द्वारा जारी\*  
\_\_\_\_\_ है तथा उनको देय राशि के हकदार होने का उनका दावा है।

Where as first party holds\* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ issued by the second party,  
and claims to be entitled to the amount due thereunder.

प्रथम पक्षकार से उक्त\*\*  
\_\_\_\_\_ सो गये हैं/गयी हैं तथा अब उनका मिलना संभव नहीं है।

\*\* यहां केवल सम्बन्ध  
दस्तावेजों का विवरण दें।

And where as the first party has lost the said\*\* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ and the same cannot be found.

प्रथम पक्ष घोषणा करता है कि उन्होंने उक्त\*\*\*  
\_\_\_\_\_ की किसी व्यक्ति के पास  
किसी भी रूप में न तो बंधक रखा है और न ही उनका समानुद्देशन, अन्तरण अथवा बेचान किया है।

\*\*Here state descriptions  
of the documents concern-  
ed only.

And where as the first party declares to have not mortgaged, assigned,  
transferred or negotiated in any manner the said.\*\* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ to any person

द्वितीय पक्षकार उक्त\*\*  
की रकम का भुगतान करने के लिए इस शर्त पर सहमत हैं कि प्रथम पक्षकार इस आशय का एक  
क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित करेगा जिसके अंतर्गत वह आगे दिए अनुसार द्वितीय पक्षकार की  
क्षतिपूर्ति के लिए सहमत होगा।

And where as the second party has agreed to make payment of the  
said\*\* \_\_\_\_\_  
on the condition that the first party executes an Indemnity Bond agreeing to  
indemnity the second party in the manner hereinafter appearing.

अब यह करार साक्षी है कि उक्त\*\* \_\_\_\_\_ को रकम का  
भुगतान द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रथम पक्षकार को उक्त\*\* \_\_\_\_\_ के सो जाने  
के कारण कर दिये जाने के फलस्वरूप, प्रथम पक्षकार को उक्त\*\* \_\_\_\_\_  
के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा द्वितीय पक्षकार के विरुद्ध किये गये दावों/अथवा उनको  
ब्याज सहित रकम आदि के लिये द्वितीय पक्षकार उसके एजेंटों तथा सेवकों को हानि नहीं होने  
देगा तथा क्षतिपूर्ति करेगा प्रथम पक्षकार यह वचन भी देता है कि यदि बात में उक्त\*\* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ मिल जाती/जाता है तो वह उसे द्वितीय पक्षकार को  
लौटा देगा। ऐसे भुगतान के परिणामस्वरूप द्वितीय पक्षकार के प्रभारों, खर्चों और नुकसान आदि के लिए उसको  
(द्वितीय पक्षकार) क्षतिपूर्ति करने से भी सहमत हैं।

Now this agreement witnessed that in consideration of the payment of the amount of the said\* \_\_\_\_\_ by the second party to the first party in the absence of the said\*\* \_\_\_\_\_ the first party agrees to hold the second party, its agents and servants harmless and indemnified in respect of all claims, made to the said\*\* \_\_\_\_\_ or to the amount thereof including interest, by any person against the second party. The first party further undertakes to make over said\*\* \_\_\_\_\_ to the second party if he happens to find out the same subsequently. The first party also agrees to indemnify the second party in respect of all charges, costs and damages which the second party may incur in consequence of such payment.

गवाह \_\_\_\_\_

Witness

गवाह \_\_\_\_\_

Witness

स्थान \_\_\_\_\_

Place

तारीख \_\_\_\_\_

Date

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

(Signature of the first party)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

(Signature of the second party)